



नगर पालिक निगम भिलाई



मासिक पत्रिका
मार्च 2018



नगर पालिक निगम भिलाई





श्री देवेन्द्र यादव
महापौर

संदेश

शहर में निवासरत सभी नागरिकों को शुभकामना, मैं अपनी पूरी क्षमता व लगन के साथ प्रयासरत हूं कि अंतिम व्यक्ति तक मूलभूत सुविधा पहुंचे। हम अपने इस लौह नगर को स्वच्छता, पानी, बिजली, सड़क, व्यवस्थित बाजार, पार्क, उद्यान, खेल-कूद, शिक्षा, आपसी प्रेम भाईचारा, सांस्कृतिक महोत्सव, आदि सभी क्षेत्रों में अग्रणी बनायेंगे। हम सब लोग मिलकर ही अपने शहर को स्वच्छ भिलाई सुन्दर भिलाई व स्वस्थ भिलाई बना सकते हैं।

श्री देवेन्द्र यादव
महापौर
नगर पालिक निगम
भिलाई



नगर पालिक निगम भिलाई



महापौर परिषद द्वारा निगम के आय व्यय की समीक्षा निगम आयुक्त श्री के0एल0 चौहान की उपस्थिति में की गई

भिलाईनगर/निगम महापौर श्री देवेन्द्र यादव की उपस्थिति में महापौर परिषद के समक्ष नगर पालिक निगम भिलाई के द्वारा वर्ष 2016-17 का संसोधित बजट प्रस्तुत किया गया था। संसोधित बजट के आय व्यय के संबंध में महापौर परिषद के द्वारा संबंधित अधिकारियों से जानकारी मांगी गई थी तथा बिन्दुवार चर्चा उपरान्त संबंधित अधिकारियों को विषयवार जानकारी उपलब्ध कराये जाने का निर्देश दिया गया था। कुछ विभाग की जानकारियां प्रस्तुत की गई थी शेष विषयों पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई थी इस संबंध में निगम महापौर द्वारा निगम के समस्त विभाग प्रमुखों को सक्त निर्देश दिया गया था कि वे विषय अनुसार जानकारी उपलब्ध करावें ताकि आगामी बजट के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी तैयार की जा सके। महापौर श्री देवेन्द्र यादव ने रामनगर मुक्तिधाम में अंत्योष्टि (शवदाह) किये जाने हेतु निगम प्रशासन के द्वारा 101 रुपये में लकड़ी उपलब्ध कराई जाती है पिछले कुछ माह से उक्त व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं चल रही है इस संबंध में संबंधित जोन आयुक्त से जानकारी प्राप्त की जिससे महापौर संतुष्ट नहीं हुए उन्होंने निगम आयुक्त को सक्त निर्देश देते हुए कहा कि आप मुक्तिधाम में अंत्योष्टि (शवदाह) किये जाने हेतु लकड़ी कैसे उपलब्ध करायेंगे उस संबंध में आप अपनी कार्य योजना स्पष्ट करें तब निगम आयुक्त श्री के0एल0 चौहान ने बताया कि रायपुर में लकड़ी हेतु व्यवस्था की गई है



नगर पालिक निगम भिलाई



महापौर देवेन्द्र यादव का "भिलाई के गोठ" कार्यक्रम के तहत दौरा कार्यक्रम

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर श्री देवेन्द्र यादव "भिलाई के गोठ" कार्यक्रम में 06 मार्च को प्रातः 07 बजे जोन 04 शिवाजी नगर के वार्ड 39 पुरैना में वार्ड का भ्रमण कर नागरिकों की समस्याओं से रुबरु होंगे। महापौर 7 मार्च को प्रातः 07 बजे जोन 06 रिसाली में वार्ड 63 रुआबांधा बस्ती का दौरा करेंगे। 8 मार्च को प्रातः 7 बजे जोन 6 रिसाली में ही वार्ड 62 रुआबांधा सेक्टर का भ्रमण करेंगे। उसी प्रकार 09 मार्च को प्रातः 7 बजे से ही जोन 6 रिसाली के वार्ड 41 डुण्डेरा का भ्रमण कर नागरिकों की समस्याओं से अवगत होंगे एवं 10 मार्च को प्रातः 7 बजे से ही जोन 06 रिसाली के वार्ड 40जोरातराई में पहुंचकर वार्ड के नागरिकों की जनसमस्या एवं वार्ड भ्रमण कर आम नागरिकों के साथ चौपाल लगायेंगे। निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों का भ्रमण कर नागरिकों से रुबरु होकर उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं महापौर कार्यालय से प्राप्त आवेदन जो वार्ड के नागरिकों के द्वारा अपनी जनसमस्या को लेकर मुझे आवेदन दिया गया था नागरिकों से प्राप्त प्रमुख रूप से मूलभूत समस्याएं नाली, स्ट्रीट लाईट, नाले की सफाई, शौचालय, विद्युत, पानी, उद्यान, अतिक्रमण, मजदुर कार्ड, का निराकरण करते हुए शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं जो सीधे आम जनता से संबंधित हैं ऐसे योजनाओं के संबंध में भी जानकारी महापौर के द्वारा उपस्थित नागरिकों को चौपाल के दौरान दी गई, तथा स्वच्छता बनाये रखने के भी संबंध में संदेश दिया गया था।



नगर पालिक निगम भिलाई



माननीय जिलाधीश श्री उमेश अग्रवाल ने दुर्ग जिले के नगरीय निकाय के अधिकारियों की बैठक ली गई।

भिलाईनगर/ कलेक्टर श्री उमेश अग्रवाल ने निगम भिलाई सभागार में नगरीय निकाय के नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत के आयुक्त मुख्य नगर पालिक अधिकारी एवं समस्त नोडल अधिकारी जो सीधे लोक सुराज अभियान 2018 अभियान में संलग्न है। इनकी बैठक आज दोपहर 3.00 बजे निगम सभागार में संपन्न हुई। बैठक के दौरान उपस्थित अधिकारियों के द्वारा लोक सुराज अभियान 2018 शिविर के माध्यम से प्राप्त आवेदनां के निराकरण के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई। आज की बैठक में मुख्य रूप से राजस्व, श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास, स्मार्ट कार्ड, आधार पंजीयन, अजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, खाद्य नागरिक अपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, लोककर्म विभाग, समाज कल्याण विभाग, बैंक एवं स्वरोजगार ऋण, स्वास्थ्य विभाग, मजदूर कार्ड, जन्म -मृत्यु विवाह पंजीयन, गुमास्ता एवं शासन के जन कल्याणकारी योजनाए जो आम जनता से सीधी जुड़ी हुई हैं। इसकी पूरी जानकारी के साथ शिविर स्थल पर संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी शिविर स्थल में उपस्थित रहकर शिविर में पहुंच रहे नागरिकों को इन सभी योजनाओं के संबंध में जानकारी देवें साथ ही आवश्यकता अनुसार आवेदक के मांग अनुरूप मौके पर ही निराकरण करने की दिशा में पहल करें।



नगर पालिक निगम भिलाई



लोक सुराज अभियान में लक्ष्य समाधान शिविर का आयोजन

भिलाईनगर/ राज्य शासन एवं जिला प्रशासन के निर्देशानुसार नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा लोक सुराज अभियान अंतर्गत लगाये जा रहे लक्ष्य समाधान शिविर का आयोजन जोन 04 शिवाजी नगर के अण्डा चौक सामुदायिक भवन प्रांगण में वार्ड 30,31,33 व 34 के निवासियों के लिए किया गया। जिसमें शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत नागरिकों द्वारा किये गये आवेदन का सीधा लाभ प्रमाण-पत्र,नियुक्ति पत्र, राशन कार्ड, एलईडी बल्ब, पेंशन, एवं स्वास्थ्य परीक्षण कर दिया गया। प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक लगाये गये शिविर में सभापति पी०श्यामसुन्दर राव, आयुक्त के०एल० चौहान, मौजूद रहकर लोगों की समस्या का स्थल पर ही निराकरण करते रहे। निगम आयुक्त श्री चौहान शिविर के प्रारम्भ में शिविर स्थल पर पहुंचकर सभी काउंटरों का अवलोकन कर लोक सुराज अभियान के प्रथम चरण में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति की जानकारी ली एवं प्रत्येक काउंटर का अवलोकन कर आवश्यक निर्देश दिये। शिविर में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना अंतर्गत लाईफ सिक्क्योर वेलफेयर सोसायटी खुर्सीपार द्वारा कौशल प्राप्त 04 युवकों को प्लेसमेंट के तहत प्राप्त नौकरी की नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया । 02 हितग्राहियों को नवीन राशन कार्ड, 05 पात्र हितग्राहियों को पेंशन प्रमाण-पत्र, बीपीएल परिवार के 09 हितग्राहियों को एलईडी बल्ब तथा 01 हितग्राही को श्रमिक प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया। जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाये गये स्वास्थ्य परीक्षण काउंटर में अब तक 328 नागरिकों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाया है।



नगर पालिक निगम भिलाई



लोक सुराज अभियान में गोद भराई की रस्म पूरी की मंत्री रमशीला साहू ने
भिलाईनगर/लोक सुराज अभियान जोन 06 रिसाली में वार्ड 58,59,62 एवं के निवासियों के लिए आर्यव्रत महाविद्यालय रुआबांधा वार्ड 63 एवं जोन 03 मदरटेरेसा नगर मानव आश्रम सेक्टर-01 वार्ड 47 में वार्ड46,47,48,49 एवं 50 के निवासियों के लिए आयोजित किया गया। श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण सुबह से ही आवेदकगण उपस्थित हो गये थे। शिविर का समय सुबह 10 बजे से 3 बजे तक निर्धारित है आयुक्त के0एल0 चौहान के निर्देशानुसार जब तक आवेदकगण उपस्थित रहते हैं तब तक फार्म वितरण कर कार्यवाही की जा रही है। शिविर के दौरान मंत्री रमशीला साहू महिला एवं बाल विकास, एवं जनपद अध्यक्ष श्रीमती माया बेलचंदन, नगर निगम आयुक्त श्री के0एल0 चौहान, एवं स्थानीय पार्षद व एल्डरमेन ने सभी काउंटरों के अधिकारी, कर्मचारियों को शिविर के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये। लक्ष्य समाधान शिविर के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री रमशीला साहू, जनपद सदस्य माया बेलचंदन, ने श्रीमती दीपा रुआबांधा निवासी जो सात माह से गर्भवती हैं उसकी रस्मों रिवाज के साथ श्रीफल, सुहाग की सामग्री प्रदान कर गोद भराई की साथ ही 6 माह के बालक गोलू का अन्न प्राशन करवाकर शुभकामना दी। समाधान शिविर में पहुंचकर प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के में पात्र 10 हितग्राहियों को गैस कनेक्शन प्रदान किये । प्रशिक्षण प्राप्त उद्यमी, घरेलु उपयोग के कार्य बिजली कार्य लोगों से आर्डर प्राप्त होने पर घर-घर जाकर सेवाएं देंगे। जांच के दौरान सही पाये गये 03 हितग्राहियों को बीपीएल राशन कार्ड प्रदान किया गया।



नगर पालिक निगम भिलाई



आधार कार्ड बनाने का लाभ ले रहें हैं लोक सुराज अभियान में

भिलाईनगर/लोक सुराज अभियान जोन 02 वैशाली नगर में विधायक विद्यारतन भसीन आधार कार्ड बनाने के काउंटर में पहुंचकर हितग्राहियों के लाईन में खड़े रहकर आधार कार्ड बनाने में लग रहे समय एवं उसकी प्रक्रिया को देखते रहे। विधायक भसीन ने आपरेटर से कहा कि आखिरी व्यक्ति के आधार कार्ड बनाने के बाद ही जाना। शिविर के दौरान 44 लोगों का आधार कार्ड का पंजीयन किया गया। वार्ड 16,26,27 के निवासियों के लिए शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला हाउसिंग बोर्ड वार्ड 27 में शिविर लगाया गया। शिविर का समय सुबह 10 बजे से 3 बजे तक निर्धारित है आयुक्त के0एल0 चौहान के निर्देशानुसार जब तक आवेदकगण उपस्थित रहते हैं तब तक फार्म वितरण कर कार्यवाही की जा रही है। शिविर के दौरान आयुक्त के0एल0 चौहान सभी जनकल्याणकारी काउंटरों पर जाकर हिदायत दी कि आने वाले हितग्राहियों को सभी योजनाओं के बारे में बताकर पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जावे। आजीविका मिशन अंतर्गत ट्रेनिंग प्राप्त 06 महिला प्रतिभागी को प्रमाण-पत्र एवं मेडल देकर नौकरी की सुविधा प्रदान की गई। जिसमें कम्प्यूटर कार्य हेतु अनल होण्डा, तहसील कार्यालय, कम्प्यूटर एजेंसी, आदि जगहों पर कार्य करने वाली एजेंसियों के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। जांच के दौरान सही पाये गये 08 हितग्राहियों को बीपीएल राशन कार्ड प्रदान किया गया।



नगर पालिक निगम भिलाई



निगम सभागार में द्वितीय चरण लाटरी पद्धति के तहत आवास आबंटन भिलाईनगर/कोहका माईनर केनाल पर सड़क निर्माण हेतु बेदखल किये गये 444 परिवारों में से 42 परिवारों को आज निगम सभागार में द्वितीय चरण लाटरी पद्धति के तहत आवास आबंटन का चिन्हांकन किया गया। दिव्यांग हितग्राहियों को प्राथमिकता के आधार पर भूतल में मकान आबंटन हेतु अवसर प्रदान किया गया। केनाल रोड में प्रभावित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना सब के लिए आवास मिशन के तहत नगर पालिक निगम, भिलाई द्वारा आम्रपाली हाउसिंग बोर्ड कालोनी जवाहर नगर में निर्माणाधीन एएचपी आवासों में ऐसे हितग्राही जिन्होंने प्रथम किशत की राशि पांच हजार रुपये निगम कोष में जमा किये हैं उन्हें आवास आबंटन हेतु आयोजित लाटरी प्रक्रिया के द्वितीय चरण में 42 परिवारों को भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। दिव्यांग 4 परिवार को आयुक्त श्री के0एल0 चौहान जी के निर्देशानुसार भूतल पर मकान आबंटन हेतु प्राथमिकता देते हुए 4 दिव्यांग परिवार के सदस्यों को लाटरी निकालने हेतु प्रथम अवसर दिया गया। जिन हितग्राहियों को आवास आबंटन हेतु लाटरी प्रक्रिया के तहत चिन्हित किया जा चुके 137 परिवार मकान की किशत राशि 3हजार रुपये प्रतिमाह के 01 से 10 तारीख के बीच निगम में जमा करना होगा। लाटरी प्रक्रिया के प्रारम्भ में शरद दुबे ने निगम द्वारा मकान आबंटन हेतु निर्धारित किये गये नियम शर्तों को हितग्राहियों को पढ़कर सुनाया। लाटरी प्रक्रिया को विद्याधर देवांगन, उमेश साहू, रमेश वर्मा, ने सफल रूप से संचालित किया।



नगर पालिक निगम भिलाई



हितग्राहियों को गैस चुल्हा का वितरण किया गया

भिलाईनगर/ लोक सुराज अभियान के लक्ष्य समाधान शिविर शासकीय प्राथमिक शाला सेक्टर-07 में छ0ग0 शासन के केबिनेट मंत्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत 17 हितग्राहियों को गैस चुल्हा का वितरण किया गया। जोन अध्यक्ष सूर्यकान्त सिन्हा तथा आयुक्त के0एल0 चौहान ने महिला एवं बाल विकास की योजना गोद भराई में सहभागी बनें। शिविर में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के कौशल प्रशिक्षण प्राप्त तीन युवाओं को प्लेसमेंट के तहत् नियुक्ति की प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया।

मंत्री श्री पाण्डेय एवं आयुक्त श्री चौहान तथा जोन अध्यक्ष श्री सिन्हा शिविर में लगाये गये सभी विभागों के काउंटर पर पहुंचकर लोक सुराज के आवेदनों के निराकरण की जानकारी लिये तथा शिविर में प्राप्त आवेदनों का अवलोकन कर प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने के निर्देश दिये। शिविर में स्मार्ट कार्ड बनाने हेतु 22, विभिन्न प्रमाण-पत्र बनाने लोक सेवा केन्द्र से 30 आवेदन जारी किये गये ट्राईसायकल हेतु 80 दिव्यांगों को फार्म प्रदान किया गया है। शिविर में पार्षद शिवप्रकाश शिबू, दिनशा तुमाने सहित निगम, जिला प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी तथा स्वास्थ्य एवं आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता उपस्थित थे।



नगर पालिक निगम भिलाई



वर्दी नहीं पहनकर आने वाले कर्मचारियों का कटेगा वेतन-आयुक्त

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम, भिलाई के आयुक्त के0एल0 चौहान ने एक आदेश जारी करते हुए निर्देशित किया कि नगर निगम भिलाई के मुख्य कार्यालय एवं जोन अनुविभाग कार्यालय में कार्यरत् तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी वर्दी में उपस्थित नहीं पाये जाते हैं जिन कर्मचारियों को निगम द्वारा वर्दी एवं धुलाई भत्ता प्रदान किया जाता है ऐसे कर्मचारी वर्दी पहनकर अपने कार्य पर उपस्थित हो। इस संबंध में समस्त विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि अपने अधीनस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वर्दी पहनकर अपने कार्य उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें। निगम आयुक्त श्री चौहान ने सभी विभाग प्रमुखों एवं जोन आयुक्तों को सकत निर्देश देते हुए कहा कि उनके अधीनस्त कर्मचारी वर्दी पहनकर नहीं आते उनकी सूची प्रतिदिन तत्काल सामान्य प्रशासन विभाग को भेजे एवं उपस्थिति पंजी में उनकी अनुपस्थिति दर्ज करें तथा मासिक वेतन प्रदाय किये जाने हेतु बनाये जाने वाले पेडाटा में भी अनुपस्थिति दर्ज कर सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित करें।

श्री चौहान ने कहा कि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी एवं धुलाई भत्ता कार्यालय में वर्दी पहनकर आने के लिए प्रदाय किया जाता है प्रायः देखा जाता है कि कर्मचारी वर्दी पहनकर अपने कार्य पर उपस्थित नहीं होते हैं। जो अनुशासनहीनता की श्रेणी में आते हैं। ऐसे कर्मचारियों के उपर सेवा आचरण नियम के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी एवं उन्हे वर्दी एवं धुलाई भत्ते प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी तथा उक्त दिनांक की अनुपस्थिति दर्ज की जावेगी। निगम आयुक्त श्री चौहान ने ऐसे कर्मचारियों को निर्देशित किया कि वे वर्दी पहनकर अपने कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर कार्य का संपादन करें साथ ही मेरे एवं मेरे द्वारा अधिकृत अधिकारी किसी भी विभाग एवं जोन कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया जावेगा। निरीक्षण के दौरान बिना वर्दी के अपने कार्य पर उपस्थित पहने वाले कर्मचारियों के उपर उक्त दिनांक की अनुपस्थिति दर्ज कर वेतन काटा जावेगा तथा विभाग प्रमुखों को भी इसके लिए जिम्मेदार मानते हुए उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जा सकती है। इसलिए समस्त विभाग प्रमुख मेरे द्वारा जारी किये हुए आदेश का अपने अधीनस्त कर्मचारियों को पालन कराना सुनिश्चित करे तथा प्रतिदिन वर्दी नहीं पहनकर आने वाले कर्मचारियों की सूची अनिवार्य रूप से सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करावें।



नगर पालिक निगम भिलाई



शासकीय कर्मचारियों का विदाई समारोह

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम भिलाई के सभागार में निगम उपायुक्त श्री आर0बी0एस0 चौहान की उपस्थिति में निगम में कार्यरत कर्मचारी श्री कुशल राम आत्मज श्री ददवाराम चौकीदार, श्री प्यारेलाल आत्मज श्री मोहन सफाई कामगार जो अपनी 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए। अपनी सेवाकाल पूर्ण किये हुए कर्मचारी को निगम उपायुक्त श्री चौहान के द्वारा शाँल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त श्री चौहान ने कहा कि आप लोगों ने अपने सेवा कार्यकाल में उच्च अधिकारियों द्वारा सौंपे गये कार्यों का निष्ठा पूर्वक संपादन किया जाता रहा है आप लोगों का व्यवहार अधिकारी एवं कर्मचारियों के बीच मधुर संबंध रहें हैं आप लोग अपने सेवाकाल से सेवानिवृत्त हो रहें हैं निगम परिवार आप लोगों के उज्ज्वल भविष्य एवं दीर्घायु होने की कामना करता है आप हमेशा निगम परिवार को अपने पास ही पायेंगे। कार्यक्रम का संचालन संजय शर्मा ने किया। विदाई समारोह में निगम के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।

Editorial Board

श्री कुमार लाल चौहान
आयुक्त (आई.ए.एस.)
नगर पालिक निगम
भिलाई

Contact & Address

श्री सुभाष ठाकुर
जनसंपर्क अधिकारी
नगर पालिक निगम
भिलाई



नगर पालिक निगम भिलाई

